



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1106 राँची, सोमवार,

10 दिसम्बर, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

अधिसूचना

07 दिसम्बर, 2018

संख्या:-03नि0/प0-09/2016 (खण्ड II) रा0नि0आ0 : 1685.. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-568/ग्रा0पं0 दिनांक-05.12.2018 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संसूचित करते हुए अनुरोध किया गया है कि XVIII गुमला/08/10/रुकी-(09) के ग्राम पंचायत सदस्य के पद की रिक्ति की सूचना जिला द्वारा गलत प्रतिवेदित किया गया था, इसलिए उक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए। उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा-66(5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, XVIII गुमला/08/10/रुकी-(09) के ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट (countermand) करता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सचिव